

प्रत्यवयव *pratyavayava* a. entier, complet, plein, intact.

प्रत्यवरोपयामि *pratyavarōpayāmi* (c. de *ruh*) priver : *crīyās* de bonheur.

प्रत्यवसान *pratyavasāna* n. (*ava*; *sō*) action de dévorer, de manger.

pratyavasīta (pp. de *sō*) mangé.

प्रत्यवस्कन्द *pratyavaskanda* m. (*skand*) apologie.

प्रत्यवस्थात् *pratyavastāt* m. (*stā*); sfx. *ṭr*) ennemi.

प्रत्यवाप्नोमि *pratyavāpnōmi* (*ava*; *āp*) recouvrer, récupérer.

प्रत्यवाय *pratyavāya* m. (*ava*; *i*; sfx. *a*) séparation, départ; || perte, dommage.

प्रत्यवेत्ते *pratyavēṭe* (*ava*; *iā*) regarder vers, en face, en arrière; || au fig. avoir souci de, ac.

प्रत्यश्मन् *pratyasman* n. craie rouge.

प्रत्यहम् *pratyaham* adv. (*aha*) chaque jour; || avec le jour, le matin.

प्रत्याकाङ्क्षामि *pratyākāṅṣāmi* (*ā*; *kāṅṣ*) attendre en embuscade.

प्रत्याक्ष्यामि *pratyākṣyāmi* (*ā*; *kṣyā*) repousser, rejeter; refuser qqc. à qqn. [ac.]. || Répudier. || Interdire.

pratyākṣyāna n. (sfx. *ana*) action de repousser; refus; répudiation.

प्रत्यागच्छामि *pratyāgacchāmi* (*ā*; *gam*) retourner, revenir.

प्रत्याचक्षे *pratyācāṣe* (*ā*; *cāṣ*) rejeter avec dédain.

प्रत्याददामि *pratyādādāmi* (*ā*; *dā*), révoquer, *cāpam* une malédiction.

प्रत्यादिशामि *pratyādīṣāmi* (*ā*; *dīṣ*) rappeler, appeler. || Repousser, écarter, *viṇayam* une règle de discipline. || Rejeter, quitter. || Rendre vain, *caram* une attaque. || Redire, rebattre, répéter.

pratyādēpa m. action de repousser, d'écarter, etc.

प्रत्याधान *pratyādāna* n. (*ā*; *dā*) reprise de la lecture, répétition d'un mot, tg.

प्रत्यानयामि *pratyānayāmi* (*ā*; *nī*) ramener.

प्रत्याययामि *pratyāyayāmi* (c. de *pratyēmi*) faire que qqn. se rende à une opinion, le persuader.

प्रत्यायामि *pratyāyāmi* (*ā*; *yā*) aller vers, ac.

प्रत्यालिङ्गामि *pratyāliṅgāmi* (*ā*; *liṅg*) embrasser à son tour, rendre un baiser à, ac.

प्रत्यालीढ *pratyāliḍa* (pp. de *liḍ*) lapé, mangé. — S. m. attitude du tireur de flèches.

प्रत्याशा *pratyāśā* f. espérance; confiance.

प्रत्याश्वसिमि *pratyāśvasimi* (*ā*; *śvas*) respirer, reprendre ses sens.

प्रत्यासन्न *pratyāsanna* a. (*ā*; *śad*) voisin, proche.

प्रत्यासर *pratyāsara* et *pratyāsāra* m. (*ā*; *śr*) arrière-garde d'une armée.

प्रत्याहरामि *pratyāharāmi* (*ā*; *hr*) reprendre, recouvrer, ac. || Elever la voix; prononcer, *vācām* des paroles.

pratyāharaṇa n. action de maîtriser ses sens.

pratyāhāra m. mms. || Abrégé; sommaire.

प्रत्युक्ति *pratyukti* f. (*vac*; sfx. *ti*) réponse.

प्रत्युत्क्रम *pratyutkrama* m. *pratyutkramaṇa* n. et *pratyukrānti* f. (*ut*; *kram*) action de porter la main vers qqc.

प्रत्युत्तर *pratyuttara* n. réponse, réplique.

प्रत्युत्तरामि *pratyuttarāmi* (*ut*; *ṭr*) débarquer, surgir au port.

प्रत्युत्तिष्ठामि *pratyuttiṣṭāmi* (*ut*; *stā*)

se lever en face, contre, devant.

pratyutṭāna n. (sfx. *ana*) action de se lever devant qqn. [par politesse].

प्रत्युत्पन्न *pratyutpanna* (*ut*; pp. de *pad*) prompt, prêt.

pratyutpannamati a. qui a l'esprit prompt; || confiant en soi, hardi.

प्रत्युदाहरामि *pratyudāharāmi* (*ut*; *ā*; *hr*) répondre à qqn. ac.

प्रत्युदीक्षे *pratyudīṣe* (*ut*; *iā*) regarder; envisager.

प्रत्युद्गच्छामि *pratyudgacchāmi* (*ut*; *gam*)

sortir à la rencontre de, ac.

pratyudgamana n. (sfx. *ana*) action de sortir à la rencontre.

pratyudgamanīya a. à la rencontre de qui on doit sortir, respectable. — S. n. les vêtements de dessus et de dessous lavés [qui se portent aux repas, dans les cérémonies, etc.].

प्रत्युद्यानि *pratyudyāni* (*ut*; *yā*) se lever pour aller vers ou contre, ac.

प्रत्युद्गतमि *pratyudgataṁmi* (*ut*; *vraj*) aller à la rencontre de, ac.

प्रत्युपकार *pratyupakāra* m. (*upa*; *kr*) aide ou secours mutuel.

प्रत्युपतिष्ठामि *pratyupatiṣṭāmi* (*upa*; *stā*) se lever contre, menacer.

प्रत्युपपद्ये *pratyupapadye* (*upa*; *pad*) convenir, être séant : *strīṇām* aux femmes.

प्रत्युपयामि *pratyupayāmi* (*upa*; *yā*) aller vers, revenir vers.

प्रत्युपविशामि *pratyupaviṣāmi* (*upa*; *viṣ*) s'asseoir en face de qqn. ac.

प्रत्युष *pratyuṣa* m. *pratyuṣas* et *pratyuṣas* n. (*uṣa*) le matin. — M. le Soleil; || np. d'un des Vasus.

प्रत्यूह *pratyūha* m. (*vah*) obstacle, empêchement.

प्रत्यूहामि *pratyūhāmi* (*ūh*) interrompre, cesser. || Qqf. (*vah*) déployer, *vāsas* un vêtement.

प्रत्येकम् *pratyēkam* adv. (*ēka*) individuellement; un à un.

pratyēkabuddha m. un buddha personnel [qui n'a pas la charité universelle et n'opère que son propre salut].

प्रत्येमि *pratyēmi* (*i*) aller vers, aller contre, s'opposer à, ac. || Au ps. *pratyē* être le terme ou qqn. va; || être connu.

प्रत्योषामि *pratyōṣāmi* (*uṣ*) brûler un à un.

प्रत्यैमि *pratyēmi* (*ā*; *i*) revenir, retourner.

* प्रथ् *prath*. *pratē* 1; p. *paprathē*; etc.

S'étendre, s'accroître : *pratāḥ tē yaças* ta gloire se répand. || Se divulguer, || être célébré : *lōkē'smi pratāḥ puruṣōttamas* je porte dans le monde le nom célèbre de *puruṣōttama*.

pratāyāmi (c.) étendre, développer : *yaças* la gloire. || Etaler, montrer. || Célébrer.

pratā f. renom, célébrité.

pratāṭi f. mms.

pratāman m. amplitude, extension, grandeur.

pratāmin a. (sfx. *min*) large, ample, grand.

प्रथम *pratāma* a. (sfx. *tāma* pour *tama*) premier; gr. *πρῶτος*; lat. *primus*.

प्रथुक *pratāuka* m. petit d'un animal.

प्रद् *prada* a. (*dā*) qui donne.

प्रदक्षिण *pradaxiṇa* a. tourné à droite. S. n. salut qui se fait en marchant vers la droite de qqn.

pradaxiṇasavya a. ayant la main droite du côté gauche de son adversaire [c-à-d. épiant le moment de l'attaquer].

प्रददामि *pradadāmi* (*dā*) offrir, présenter : *varam* un présent [avec le d., le g., ou le l. de la pers.]. || Livrer, remettre. || Donner en mariage [une fille]. || Livrer, trahir. || Raconter, divulguer. || Pp. *pradatta*. || Gr. *πρῶτισυμι*; lat. *prodere*.

प्रदर *pradara* m. (*dṛ*) déchirure, fracture; || ménorrhagie, t. de méd. || Flèche, cf. *pradala*.

प्रदर्शक *pradarṣaka* a. (c. de *dṛṣ*) qui fait voir, qui rend visible.

pradarṣita (pp. du c. de *dṛṣ*) rendu visible, désigné, spécifié.

प्रदत्त *pradala* m. (*dal*) flèche.

प्रदहामि *pradahāmi* (*dah*) incendier; || au fig. consumer, *cōkēna* de douleur. — *pradahyāmi* être brûlant.

प्रदातु *pradāt* m. (*dā*; sfx. *ṭr*) celui qui donne, donateur.

प्रदान *pradāna* n. (*dā*; sfx. *ana*) don, donation. || (*dō*; sfx. *ana*) aiguillon.

प्रदापयामि *pradāpayāmi* (c. de *dā*) faire donner, faire porter.

प्रदामयामि *pradāmayāmi* (c. de *dam*) dompter.

प्रदिग्ध *pradigḍha* a. (*dih*) oint, enduit, souillé, *ruḍirēna* de sang. — S. m. sorte de sauce.

प्रदिदक्षामि *pradidṛṣāmi* (dēs. de *dṛṣ*) désirer voir.

प्रदिस् *pradiṣ* f. (*diṣ* f.) point intermédiaire [entre les *dīcas* ou points cardinaux]. Au pl. les 4 points du N. O., N. E., S. O., S. E.

प्रदिशामि *pradiṣāmi* (*diṣ*) montrer. || Attribuer, donner : *divyam astram* une arme divine. || Indiquer, ordonner qqc. || Gr. *πρῶτισυμι*.

प्रदीदिवस् *pradīdivas* a. (*dīdī*) brillant, Vd.

प्रदीये *pradīdye* et *pradīdye* (*dīdī*) luire :